

Date: March 1, 2024

The Manager
Department of Corporate Relationship **BSE Limited**25th Floor P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001

Scrip Code: 532900 (Equity)

NCDs and CPs - *

The Listing Department

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)

Mumbai-400051

Scrip Symbol: PAISALO

Subject : <u>Intimation of publication of Postal Ballot Notice/ Remote E-Voting in</u> Newspapers

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Postal Ballot Notice published in 'Business Standard', English and Hindi, newspapers on March 1, 2024.

The same is for your information and record.

PAISALO

Thanking you,

Yours faithfully,

For Paisalo Digital Limited

(MANENDRA SINGH)
Company Secretary

*Scrip Code-NCDs-975107, 975202, 975251, 975284, 975329, 975437 and CPs-726364, 726454

P/E ratio (x)

20.9

48.5

30.4

38.0

22.9

1,933.8

2,854.6

3,247.7

46,819.3

72,500.3

Dealers

from the Federation of view report. Automobile com-

YTD change (%)

12.0

10.9

0.4

panies are scheduled to report

February sales data on Friday

tractor manufacturers have

outperformed the benchmark

S&P BSE Sensex over the past

year. ACE Equity data shows a

surge of 43 per cent in shares

of VST Tillers Tractors, 38.04

per cent in Escorts Kubota, and

By comparison, the bench-

mark Sensex index advanced

23 per cent during the period,

while the S&P BSE Auto index

Analysts are keeping a close

52.4 per cent in M&M.

jumped 60.2 per cent.

El Niño, a key trigger

On the bourses, shares of

-4.4

-14.0

Muted demand trends may weigh on the sector, say analysts

NIKITA VASHISHT

New Delhi, 29 February

fter a stellar run at the bourses that saw tractor stocks rise by up to 52 per cent, analysts are turning cautious on the sector as muted demand trends may weigh in the near term.

Total volumes in the tractor segment for the last three quarters of the current financial year (9MFY24) have remained weak with VST Tillers, Escorts Kubota, and M&M seeing declines of 21 per cent, 5 per cent, and 3 per cent year-on-year (Y-o-Y), respectively, during the period, amid patchy rainfall, delayed crop harvest, and lower reservoir levels.

Across the industry, total domestic sales volume so far in the current financial year (April '23 to January '24) has declined 5 per cent Y-o-Y, according to the Tractor Manufacturers Association (TMA).

RIDE

(As on Feb 29)

Escorts Kubota

S&P BSE Auto

Automobile

S&P BSE Sensex

VST Tillers Tractors

Mahindra & Mahindra

Sources: Bloomberg, exchanges

Association (Fada), up 21.16 per

cent Y-o-Y and 12.4 per cent M-

o-M. February sales, however,

are expected to decline again

with Nuvama Institutional

Equities pegging the slide at

over 10 per cent Y-o-Y in the

domestic market due to high

base (inventory filling before

the festive season last year) and

weak customer sentiments in

wholesale tractor sales to

decline 13 per cent Y-o-Y in

FY24/25 growth at -6 per cent/5

per cent," it said in a sales pre-

"We estimate

south/west regions.

February.

Nomura, too,

Exports from India to the US and EU are also down 27 per cent Y-o-Y FYTD'24. Moreover, increased competition from Korean manufacturers has also dampened sales, analysts said.

We believe that the tractor volumes could remain subdued in the near-term as well due to lower reservoir level in many parts, above normal inventory, and high base of the last year. In addition, discontinuation of certain incentives in some states will also dent purchasing power. Thus, we factor industry growth decline of 5-6 per cent for the current fiscal year (FY24) and expect low digits for FY25,"said Saji John, research analyst at Geojit Financial Services.

Every month, total tractor retail sales stood at 88.671 units in January 2024, as per data

eye on emerging El Niño trends as a normal and well-distributed monsoon is crucial for the majority of Indian farmers and, thus, tractor sales.

Reservoir levels in the southern and western regions have slipped to 30 per cent and 55 per cent, respectively, of the live storage capacity compared with 51 per cent and 66 per

> cent a year ago. However, levels in the northern region, especially Uttar Pradesh, which contributes 40 per cent of the tractor demand, has grown 6 per cent Y-o-Y. "If the impact of El

Nino wanes out in FY25, we

may expect positive implications in tractor volumes post-Union Elections. We await prothe India Meteorological Department (IMD), which is expected in mid-March, 2024," said Aditya Welekar, senior research analyst tracking the sector at Axis Securities, who suggests a 'Buy on Dips' strategy for the sector from a medium-term perspective. Saji John of Geojit Financial Services, on the other hand, expects the tractor segment to recover from Q2FY25 as the preliminary monsoon forecast guidance and the new crop cycle kicks in later this year. "In addition, continuous government support for horticulture production is expected to support the rural economy and aid tractor demand. But, we don't foresee

mium valuation," he said. Stock-wise, Nuvama has 'buy' rating on Escorts (target: ₹4.200), while Nomura has maintained 'buy' on M&M (target: ₹2,143).

any immediate recovery

owing to peak volume and pre-

MADHABI PURI BUCH COMPLETES 2 YEARS AS SEBI CHIEF

Pivoting towards a balanced approach

Mumbai, 29 February

Madhabi Puri Buch's first year as chief of the Securities and Exchange Board (Sebi) was underscored by speedy reforms. During the second year of her initial three-year tenure, Buch pivoted towards a more balanced approach placing more emphasis on consensusbuilding even as the reform process slowed. The changed approach was evident as Sebi put nearly half a dozen key proposals on the back burner, set up an Industry Standards Forum for policy implementation, and delayed the implementation of the new disclosure around verification of market reforms.

Among the reforms in cold storage are the total expense ratio framework for the mutual fund industry, redefining unpublished price-sensitive information, norms around suspicious trading activity, and an overhaul of delisting norms.

Despite initial resistance from the industry, Buch, the first female chairperson of Sebi, managed to halve the settlement cycle both for the secondary markets (to T+1) as well as the initial public offering market (to T+3). For this, the former banker earned a lot of accolades and also improved India's standing among global peers.

The 58-year-old — who oversees India's \$4.7 trillion equities market doesn't plan to rest on her laurels and has set out an ambitious goal, such as moving towards a same-day and instantaneous settlement cycle for the secondary market.

Sebi is also giving the final touches

THE CHANGEMAKER

Challenges

■ Unfavourable orders by SAT in Zee Entertainment, NSE colocation case, share pledging matter in Karvy case

■ Delay in key reforms such as bringing MFs within the insider trading ambit, rumour verification

■ Ensure the development of AIFs while at the same time ensuring no circumvention of regulations

The road ahead

■ Implementation of instantaneous and sameday settlement for secondary market trades

Building consensus among all stakeholders on key reforms

Clipping the wings of finfluencers, those spreading misinformation

Use of Al and other advanced

to a new payment system for settling trades where funds will remain in the investor's bank account, thereby preventing misuse by brokers.

During Buch's second year, Sebi also introduced repo clearing and a backstop facility to help the debt segment. The regulator also beefed up the vetting process for IPOs and upped its ante against errant finfluencers and television experts manipulating stocks. However, a proposal to restrict associations with finfluencers is yet to be approved. The year was also not short of challenges as Sebi faced some setbacks before the Securities Appellate Tribunal (SAT) in matters such as the National Stock Exchange colocation case (the tribunal set aside the penalty

imposed by Sebi), lenders' appeal for pledged shares in Karvy matter (Sebi's order was called a 'highway robbery' by SAT), and Zee Entertainment Enterprises (the tribunal lifted the ban on Punit Goenka). The market regulator also had to deploy huge resources to investigate allegations against Adani Group levelled by Hindenburg Research. The Adani matter also led to further tight-ening of foreign portfolio investor disclosure norms by the regulator. In her final year, Buch will look to implement key reforms like instant delivery of trades, ensuring she leaves a rich legacy behind. Also, Sebi's possible orders in the Adani and Zee matter would be keenly watched by

Bitcoin's push towards a record is showing bearish signals

Bitcoin ticked its way back up toward as traffic surged. \$64,000 on Thursday, shoring up confidence that the cryptocurrency might soon reach a record high. Before that, though, traders could be in for a break.

Bitcoin spiked to \$63,968 on Wednesday, before paring much of those gains in a crash back to below \$59.000 a move that buffeted crypto providers like 2021, and whether this rally represents the Coinbase Global, which suffered outages

Buying has largely been spurred on by massive net inflows into US Bitcoin exchange-traded funds, which topped \$7 billion this week. The token's momentum has triggered comparisons to the environment last seen during Bitcoin's all-time record high of nearly \$69,000 in November start of a new bull market for cryptoassets.

A concern has been a lack of supply of Bitcoin available for purchase in the open market, with more than half of all Bitcoin tokens in circulation having not moved in more than two years, per Glassnode data. Some like Stephane Ouellette, chief executive of digital-asset platform FRNT Financial, said such fears could be overblown, with short-term holders already starting to offload positions. **BLOOMBERG**

Stressed Assets Resolution Group, Corporate Centre 21st Floor, Maker Towers "E" Wing, Cuffe Parade, Mumbai - 400005

TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURES TO THE ELIGIBLE BUYERS (PERMITTED ARCs/NBFCs/Banks/FIs) THROUGH e-AUCTION State Bank of India invites Expression of Interest (EOI) from Eligible

Participants subject to applicable regulations issued by Reserve Bank of India/regulators for transfer of Stressed Loan Exposure of one individua account with principal outstanding of ₹44.31 Crores (Rupees Forty Four crores and thirty one lakhs only) through e-Auction on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis

All interested eligible participants are requested to submit their willingness to participate in the e-Auction by way of an "Expression of Interest" and after execution of Non-Disclosure Agreement (as per the timelines mentioned in web-notice) if not already executed by contacting on e-mail id dgm.sr@sbi.co.in. Please visit Bank's website https://bank.sbi and click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" for further details (web-notice)

Please note that Bank reserves the right not to go ahead with the proposed e-Auction and modify e-Auction date, any terms & conditions etc. at any stage without assigning any reasons by uploading the corrigendum at https://bank.sbi (click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT"). The decision of the Bank shall be final and binding.

SUNDARAM MUTUAL

a. Appointment of Key Personnel

Name

Pathanjali Srinivasan

b. Newly opened Customer Care Centre:

the Schemes of Sundaram Mutual Fund:

Place: Mumbai Date: 01.03.2024

Issued by Deputy General Manager (ARC)

Age / Educational Qualification

Qualification: Chartered Accountant,

Additional Information (SAI) of the schemes of Sundaram Mutual Fund as amended from time to time.

Bachelor's degree in Commerce (B.com)



IDBI BANK LTD. D-24, Durlabh Niwas, Prithviraj Road C Scheme, Jaipur. PIN: 302001

IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005. Website: www.idbibank.in

APPENDIX IV [RULE 8 (1)]

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas, the undersigned being the authorised officer of IDBI Bank Limited under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 27.10.2023 calling upon the borrower Shri Amit Jain and Smt. Rashmi Jain to repay the amount mentioned in the notice being Rs.4.67.906.34 Rupees Four lakhs Sixty Seven thousand nine hundered six and thirty four paisa Only), within 60 days from the date of the receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

porrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 27th day of February of the year 2024. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **IDBI** Bank Limited for an amount of Rs.4,67,906.34 (Rupees Four lakhs Sixty Seven thousand nine hundered six and thirty four paisa Only), and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 c he Act, in respect of time available, to redeem the secured assets **DESCRIPTION OF THE PROPERTY**

All that piece and parcel of land comprised in and forming part of Flat No.D-508, Fourth Floor, Gurushikhar Dand situated on Khasra No.1 to 7, near Ring Road, Gram Nanakpura, Hemaki Nangal, Sanganer Jaipur-302021 and which is bounded as follows: On the East by: Open to sky, On the West by: Corridor, On the South by: Stairs, On the North by: D-507

ogether with all and singular the structures and erections thereon, both present and future Sd/- Authorised Officer, IDBI Bank Limited Date: 27-02-2024, Place: Jaipur

Brief Experience

More than three years of experience in Equity

Notice – cum – Addendum to the Scheme Information Document / Key Information

Memorandum / Statement of Additional Information to the schemes of Sundaram Mutual.

Mr. Pathanjali Srinivasan has been appointed as a Dedicated Fund Manager for Overseas Investments effective March 01, 2024.

Accordingly, his details shall be added under "Information on Key Personnel's of the Asset Management Company" in the SAI of the

Investors / Unit holders are advised to take a note of the newly opened Customer Care Centre of KFin Technologies Limited which is operational from 27 th February 2024 at the below mentioned address. This is an official point of acceptance of transactions for

Address

KFin Technologies Limited

1st Floor, Krishna Complex, Opp. Hathi Gate, Court Road,

Saharanpur, Uttar Pradesh, Pin Code 247001

Contact: 0132-2990945, 8433483277, 9305458681

All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional

This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) / Statement of

RESERVE BANK OF INDIA Plot No 16-17, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

Phone: 0135-2742031: Website: www.rbi.org.in Email: estatedehradun@rbi.org.in

nnual Maintenance Contract for maintenance of substation and electrical installations at Main Office Premises, Reserve Bank of India, Dehradun

Reserve Bank of India, Dehradun invites e-tender in two parts (Part I & II) from reputed agencies for providing Annual Maintenance Contract for maintenance of substation and electrical installations at Main Office Premises. Reserve Bank of ndia, Dehradun on contractual basis. The interested agency must register on the MSTC portal (<u>http://mstcecommerce.com/eprocn/</u>) for participating through c tendering. Details of the Tender document will be available on RBI website https://www.rbi.org.in/ →Tenders) and MSTC portal. Amendments/ Corrigendum, if any, will be displayed only on RBI Website. The Tender (Part-I & Part-II) may be submitted on or before 03:00 PM noon of April 09, 2024 through MSTC portal only.

Regional Director/O-i-C. Reserve Bank of India. Dehradun



RESERVE BANK OF INDIA Plot No 16-17, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

Phone: 0135-2742031; Website: www.rbi.org.in Email: estatedehradun@rbi.org.in

nnual Maintenance Contract (AMC) for Civil Works and Housekeeping & Maintenance Services at the Bank's Main Office Building at Dehradun

eserve Bank of India, Dehradun invites e-tender in two parts (Part I & II) from reputed agencies for providing Annual Maintenance Contract (AMC) for Civil Works and Housekeeping & Maintenance Services at the Bank's Main Office Building at Dehradun on contractual basis. The interested agency must register on the MSTC portal (http://mstcecommerce.com/eprocn/) for participating through e-tendering. Details of the Tender document will be available on RB website (https://www.rbi.org.in/ →Tenders) and MSTC portal. Amendments, Corrigendum, if any, will be displayed only on RBI Website. The Tender (Part-I & Part-II) may be submitted on or before 03:00 PM noon of April 09, 2024 through MSTC portal only.

Regional Director/O-i-C, Reserve Bank of India, Dehradun

POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

Whereas. The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING

FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 31.01.2022 calling upon the Borrower(s) RAJAT SINGHAL AND MAMTA SINGHAL to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 24,06,494.94 (Rupees Twenty Four Lakhs Six Thousand Four Hundred Ninety Four and Paise Ninety Four Only) against Loan Account No. HHLEOK00167882 as on 25.01.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 26.02.2024.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 24,06,494.94 (Rupees Twenty Four Lakh Six Thousand Four Hundred Ninety Four and Paise Ninety Four Only) as on 25.01.2022 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 o the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

APARTMENT BEARING NUMBER 157 ADMEASURING SUPER AREA OF 1145 SQUARE FEET ON THE 15TH FLOOR, IN TOWER NUMBER 06, ALONG WITH ONE COVERED CAR PARKING, IN THE RESIDENTIAL COMPLEX KNOWN AS "PALM OLYMPIA". SITUATED AT GROUP HOUSING PLOT NUMBER GH-02. SECTOR 16 C. GREATER NOIDA, GAUTAM BUDH NAGAR-201308, UTTAR **PRADESH**

Date: 26.02.2024

Authorised Officer Place: GAUTAM BUDH NAGAR INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED



National Centre for Radio Astrophysics TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH Savitribai Phule Pune University Campus, Ganeshkhind, Pune 411 007

Expression of Interest No. 10 /2023-2024

market players.

Request for Expression of Interest (EoI) regarding work for the Construction Phase of the ndian Contribution to SKA-Low Signal Processing Subsystem (SPS) and allied service of the Square Kilometer Array. **Eol Document Fee : Rs. 8.850/- (including GST)** For details Eol notification and downloading please visit our website http://www.ncra.tifr.res.in/ncra/ncra1/public-tenders-1 and on CPPP e-procure portal

PAISALO PAISALO DIGITAL LIMITED REGI. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companie

(Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) and/or re-enactment(s) for the time beling in force), Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India from time to time; General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022,11/2022 and 09/2023 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, June, 15, 2020, September 28, 2022, and September 23, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively; Regulations 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and any other applicable laws and Regulations, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Thursday, February 29, 2024 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners Maintained by the Shareholders of the Company by way of Special Resolution for the matter as considered in the Resolution of the Postal Ballot Notice dated Thursday, February 22, 2024 (Notice or Postal Ballot Notice by Remote Voting only). allot Notice by Remote Voting only).

The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for providin, remote electronic voting facility (e-voting) to its members, The detailed procedure for e voting is provided as part of the Postal Ballot Notice, Members are requested to provide thei

sting is provided as part of the Postal Ballot Notice, Members are requested to provide their seem of dissent through e-voting process only.

person who is not a member as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot in information purpose only. Once the vote on a resolution is cast, members shall not be lowed to change it subsequently.

II the members hereby informed that: Ithe members hereby informed that:

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date i.e. Friday, February 23, 2024 may cast their votes on the Special Business as set
out in the Postal Ballot Notice, only through e-voting; Friday, March 1, 2024 (9:00 A.M. IST).
Day, date and time of commencement of e-voting: Friday, March 1, 2024 (9:00 A.M. IST).
Day, date and time of end of e-voting: Saturday, March 30, 2024 (5:00 P.M. IST).
The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the e-voting
platform would be disabled by NSDL thereafter.
Mr. Satish Kumar Jadon, Proprietor of M/s Satish Jadon & Associates, Company
Secretariae has been appointed as Scrutinizar to scrutinize the averting recess in a fail

Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fa The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director, or any person authorize

by the Managing Director after the completion of the scrutiny of the e-voting. The result of e-voting shall be declared on Monday, April 1, 2024 by placing it on the website of the Company at www.paisalo.in along with the scrutinizer's report. The copy of the results of the e-voting shall be submitted to BSE Ltd. and National Stoc

Exchange of India Ltd. on Monday, April 1, 2024 and will also be displayed on the websit of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and National Securitie Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

บะทุบราเพาร เมาแลน (พรบะ) at www.evoung.nsdl.com. The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspectio electronically and members seeking to inspect such documents can send an email t

he shareholders, who have not registered their email address, mobile and KYC details wit TA/ Depositories are again requested to register/update the above details with illustries are again requested to register/update the above detail liately, in the following manner:

immediately, in the following manner:
 Registering/updating the details with DP: In case the Shares held in demat mode, shareholder should register/update the email address, mobile no., bank account and KYC details in his/ her demat account as per process advised by the DP.
 Registering/updating the details with RTA: In case the shares held in physical mode, the shareholders should immediately register/update the email ID, mobile and other KYC details by submitting prescribed ISR-1 at e-mail cs@paisalo.in or sending at registered office of the Company. Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at https://paisalo.in/pdf/2_Relevant-forms/Form_ISR-4.pdf or from website of RTA https://www.alankit.com/registrar-and-share-transfer-agent.
 In case of any query or grievances in relation to e-voting, members may send the same at below mentioned addresses/officer of the Company/NSDL:

| Particulars | Paisalo Digital Limited | National Securities Depository Limited |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Address | CSC, Pocket-52, | Trade World, A Wing, 4th Floor, |
| | Near Police Station, | Kamla Mills Compound, |
| | CR Park, New Delhi-110019 | Lower Pawel, Mumbai-400013 |
| Name & | Mr. Manendra Singh | Ms. Prajakta Pawle, |
| Designation | Company Secretary | Assistant Manager |
| Tel.: | 91 11 4351 8888 | 91 4886 7000, 2499 70000 |
| E-mail ID | cs@paisalo.in | evoting@nsdl.co.in |

-mail ID | Cs@paisalo.in | evoting@msdi.co.in |
Shareholders are encouraged to exercise their voting rights, e-voting makes it simpler. Shareholders are advised to convert their physical shares in dematerialized form for ease of holding, transfer ability and other associated benefits. With effect from May 23, 2023, SEBI has mandated allotment of shares in a bonus issue only in the dematerialized from, Therefore, Shareholders holding shares in physical form, are advised to provide the details of their demat accounts which should be in the same name(s)/order of names as in the physical holding along with Form ISR-4 and Client Master List of DP with company's RTA M/s Alankit Assignments Limited for crediting the shares to the their demat accounts.

The shareholders holding share in physical form shall first ensure that Physical share folios

shares to the their demat accounts.
The shareholders holding share in physical form shall first ensure that Physical share folios are updated with KYC, PAN and choice of nomination, Only after complying with this requirement, the request for crediting the bonus shares would be considered and processed by the Company/RTA after proper verification of the documents.

By Order of the Board of Director

Manendra Sing

CIN: U93090TN1996PLC034615

Place: Chennai

Date: March 01, 2024


Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

For more information please contact:

Sundaram Asset Management Company Ltd

(Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)





Royapettah, Chennai-14.

Corporate Office: 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road.



Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215

Fax: +91 44 2841 8108. www.sundarammutual.com



For Sundaram Asset Management Company Ltd

Company Secretary & Compliance Officer



R Ajith Kumar





इंडोस्टार होम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड लेक रोड, चकाला, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400093. **ई-मेल: connect@indostarhfc.com**

इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने रिहायसी प्रिसर के बंधक के एवज में नीचे तल्लेखित कर्जदारों को गह ऋण/बंधक ऋण प्रदान किया है। कथित ऋण का चुकता अनियमित था तथा नेशनल बैंक/आरबीआई के निर्देशाविलयों दिशानिर्देशों के अनुसार अंत में खाते को अनुर्जुक समानि के क्या में वर्गीकृत कर दिया गया है।

इंडोस्टार होम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड इसलिए अपने अधिकारों को लागू किया है एवं सरफेसी अधिनियम, 2002 की धार 13(2) के अधीन सूचना जारी की है तथा कर्जदारों को मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर सम्बद्ध कर्जदारों के खिलाफ उल्लेखित कुल बकाया रकम चुकता करने को कहा गया है। इस प्रकाशन के जिए नीचे उल्लेखित कर्जदारों को एतदृद्वारा कथित मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर उनके खिलाफ उल्लेखित कुल बकाया रकम के साथ भुगतान की तारीख तक आगे के शुल्क तथा उपार्जित ब्याज की रकम चुकता करने को कहा गया है, अन्यथा आईएचएफपीएल सम्पत्तियों पर कब्जा करने, उसका नेपटान/बिक्री के लिए किसी अथवा सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग करेगी एवं बकाया रकम के एवज में बिक्री से प्राप्त रकम का

| _ | The state of the s | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------|-----------------|---|--|--|--|
| क्र. | स्थान/ | कर्जदार/ | भेजी गई | मांग सूचना | सम्पत्ति का विवरण | | | |
| सं. | ऋण खाता | सह-कर्जदारों/ | मांग सूचना | के अनुसार | | | | |
| | संख्या | गारंटीदाता का नाम | की तिथि | रकम | | | | |
| 1 | दिल्ली गाजियाबाद | धीरेन्द्र कुमार, | 17-फरवरी-2024 | ₹. 16,03,821/- | ग्राम-शाहबेरी, परगना एवं तहसील दादरी, | | | |
| ı | LNGHA0HL- | प्रियंका ज्योति | | (रुपये सोलह लाख | जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201301 | | | |
| ı | 02190009428 | मैसर्स मूभ बिटकॉन | | तीन हजार | में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाला प्लॉट नं. | | | |
| ı | | प्राइवेट लिमिटेड | | आठ सौ | बी-2, कैपिटल होम्स, उम्मीद गार्डन, | | | |
| ı | | | | इक्कीस मात्र) | सेक्टर-4, खसरा नं. 166, खाता नं. | | | |
| ı | | | | | 17, लेवल-2, अपर ग्राउंड फ्लोर (पिछला | | | |
| ı | | | | | आरएचएस दक्षिण पश्चिम हिस्सा) पर | | | |
| ı | | | | | सम्पत्ति फ्लैट नं. यूजी-1 का सम्पूर्ण एवं | | | |
| ı | | | | | सर्वांगीण हिस्सा। भवन की चौहद्दी एवं | | | |
| ı | | | | | परिमाप निम्नलिखित हैंः उत्तर मेंः 50 | | | |
| ı | | | | | फीट रास्ता, पश्चिम में: प्लॉट नं. बी-1, | | | |
| ı | | | | | पूर्व में: प्लॉट नं. बी-3, दक्षिण में: बाबू | | | |
| l | | | | | की खेत। | | | |
| तार्र | तारीखः 01.03.2024 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी | | | | | | | |
| स्थ | स्थानः दिल्ली इंडोस्टार होम फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड | | | | | | | |

सिक्यरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फादनेंशियल एसेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

| अनु. | कर्जदाता (ओं) का नाम | गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण | एन.पी.ए.की | बकाया राशि |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| क्र. | (Ū) | (बी) | तारीख (सी) | (रू.) (डी) |
| 1 | कर्ज खाता नं.HHLEOK00207990 | फ्लैट नं. 1101, ग्यारहवीं मंजिल, | 31.12.2022 | ₹.62,58,086.95 |
| | 1. प्रमुच गोयल | ब्लॉक बी-4, द रोमानो, प्लॉट नं.001, | | (रूपये बासठ लाख अञ्चावन |
| | 2. पूनम गोयल | सेक्टर 118/जीएचपी, गौतमबुद्ध नगर, | | हजार छियासी और पंचानवे |
| | | नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश | | पैसे मात्र) 06.02.2024 के |
| | | | | अनुसार |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो

के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सुचनाएं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से

60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पुण दायित्वोका निर्वहन करे. ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता "

जयपुर-302012 (गारन्टर)

कराके ले सकते हैं।

नगर एबी, अजमेर रोड़ जयपुर (बिल्डर)

E-Mail :dir@gurupragya.com

कराके ले सकते हैं।

नगर एबी. अजमेर रोड जयपर (बिल्डर)

की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

E-Mail :dir@gurupragya.com

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है ।

स्थान:नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइस लिमिटेड एसीआरई-102 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता अनुसार कार्यरत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए

सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

वानिकी पथ

समक्ष वाणिज्यक न्यायालय कम-4 जयपर महानगर -II जयपर

प्राई० डी० बी० आई० बैंक लिमिटेड, - बनाम- श्रीमती तारा सोलंकी वगै

श्री अफसार अहमद चौधरी, निवासी-म०न0-188, इंजिनियर कॉलोनी, विश्नावाला, पाच्यावाला, सिरसी रोड

गुरुप्रज्ञा रियल मार्ट प्राo लिo जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/निदेशक श्री सुभाष सैनी पंजीकृत कार्यालय 37, निर्माण

वादी ने आपके विरूद्ध स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा के लिये वाद संस्थित किया है। आपका इस न्यायलय में तारीख

30 माह अप्रैल सन् 2024 को दिन में 08 बजे सुबह दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये

पचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश

दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति

हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा क

. लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन प

आपकी प्रतिरुक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज प

चाहे यह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप

में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सची में प्रतिष्ट करें

आपको सुचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद

यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर

होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिये जिसे पेश करने के लिये साक्षी

से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है. सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्चे की रकम जम

यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में ज

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए

सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

वानिकी पथ

समक्ष वाणिज्यक न्यायालय क्रम-4 जयपुर महानगर -II जयपुर

आई० डी० बी० आई० बैंक लिमिटेड, - बनाम- पंकज पाण्डे वगै०

गरुप्रजा रियल मार्ट प्रा० लि० जरिये अधिकत प्रतिनिधि/निदेशक श्री सभाष सैनी पंजीकत कार्यालय 37. निर्माण

वादी ने आपके विरूद्ध स्थाई एवं आजापक निषेधाजा के लिये वाद संस्थित किया है। आपका इस न्यायलय में तारीर

13 माह मार्च सन् 2024 को दिन में 08 बजे सुबह दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये

चन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश

दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति

हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा क

लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन प

भ्रापकी प्रतिरुक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज फ

वाहे यह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रू

। में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रतिष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद

यदि आपको यह आशंका है कि आपके माश्री अपनी मर्जी में हाजिए नहीं होंगे तो आप किमी माश्री को हाजिए

होने के लिये विवास करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिये जिसे पेश करने के लिये साक्षी

से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्चे की रकम जमा

यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा

करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी और सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पड़े।

ाह वाद ता० 12 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

बाद बाबत वसली CIS 489/2022 वाद संख्या-95/2023 CNR-RJJTIA0033372022

करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी और सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पड़े।

ाह वाद ता॰ 12 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

बाद बाबत वसूली CIS 492/2022

वाद संख्या-_{19/2023} CNR-RJJTIA0033402022

सही/

ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com** या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर किया बाईपास रोड, रूद्रपुर (कथम सिंह नगर) फोन नं: 05944-242552 ई-मेतः aanchalcattlefeed@gmail.com दिनांक: २९ फरवरी २०२४

निविदा सूचना संख्या-37/Raw Material/CFP/2023-24, Date - 01/03/2024

निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदा के द्वारा Two Bid System के अर्न्तगत पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं / निर्माताओं / फर्मो से दिनांक 15.03.2024 के सांय 05.00 बजे तक निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 16.03.2024 की प्रातः 11.00 बजे यू०सी०डी०एफ० कार्यालय मंगल पड़ाव हल्द्वानी में खोली जायेगी।

| 丣0 | कच्चा माल विवरण | कुल मात्रा | धरोहर | निविदा शुल्क | आपूर्ति | |
|-----|--|------------|----------|--------------|-------------------|--|
| सं0 | | M.T. | धनराशि ₹ | GST सहित ₹ | शैड्यूल | |
| 01 | डी०ओ०एम०सी० | 2450 | 1076100 | 4720 | | |
| 02 | एम0ओ0सी0 | 600 | 298800 | 4720 | -00 | |
| 03 | मक्का | 550 | 230900 | 4720 | निविदा प्रपत्र | |
| 04 | नमक | 300 | 20000 | 1180 | क्र | |
| 05 | एस.आर.एन. (slow- release non-Protein nitrogen 23%) | 300 | 152400 | 4720 | अनुसार | |
| 06 | कैलसाईट पाउडर | 250 | 16500 | 1180 | | |
| | | | | | | |

<u>नोट— निविदा की शर्ते तथा उपलब्धता एवं प्रस्तुतीकरण का तरीका—</u>

निविदा प्रपत्रों का मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार जी.एस.टी. सहित, प्रति आइटम, निविदा प्रपत्र Online, वेबसाइट https://uktenders.gov.in पर उपलब्ध है, तथा यही से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। ई—निविदा से मम्बन्धित अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। ई–निविदा वेबसाइट पर दिनांक 01.03.2024 से उपलब्ध रहेगी।

सामान्य प्रबन्धक पशआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण हेतु समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट मामला मंत्रालय,

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

..... शकुंतला देवी हॉस्पिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय

शकुतला दवा हास्पिटल लिमिटड पंजाकृत कायालयः द्वारा शकुतला हॉस्पिटल, बैंक कॉलोनी, अम्बर सिनेमा के निकट, जी.टी. रोड, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत 201204 के मामले में भारत 201204 के मामल म उत्तद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 14 के साथ मठित ऊप्र उल्लिखित नियमों के अधीन कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन करने जा रही है तथ गिन्ने जल्लेखित क्रपांतरण को प्रभावी स्वरूप देने हेत

नाय उत्लाखत रूपातरण का प्रमाया स्वरूप दन हुत् कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 20 फरवरी, 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताय के मद्देनजर कंपनी को प्राइयेट लिमिटेड कंपनी रूपांतरित करना चाहती है। कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी की स्थिति/प्रस्तावित गड़ ना व्यक्ति जिनका हित क्येना का स्थात/प्रस्तायत ।दलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी ग्रापत्ति अथवा इसके कारण को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर पंजीकृत डाक का तारिख से बाद हिना के अदूर पंजाकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अत्योदय मवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली-110003) के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति

एवं विरोध के कारण यदि कोई है का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके नीचे उल्लेखित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें: शकुंतला देवी हॉस्पिटल लिमिटेड

हस्ता/-हस्ता/-जगदीश प्रसाद गुप्ता डीआईएनः 00264940 कंपनी का पंजीकृत कार्यालय द्वारा शकुंतला हॉस्पिटल, बैंक कॉलोनी, अम्बर सिनेमा के निकट, जी.टी. रोड, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश,

ਾਰ 201204 दिनांक: 1 मार्च 2024 स्थानः उत्तर प्रदेश

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स आशियाना डवेलिंग्स प्रा. लि. द्वारा विकसि रियल एस्टेट परियोजना "आशियाना मलबेरी फेज II" के आबंटितों का ध्यान आकर्षण हेतु सार्वजनिव प्तचना। 1. ऊपर उल्लेखित परियोजना पंजीकरा . 22 ऑफ 2018 दिनांक 23.10.2018 के मार्फत आरईआरए के साथ पंजीकृत है तथ पंजीकरण दिनांक 30.12.2023 तक (कोविड 19 के 6 महीने सहित) वैध था।

2. प्रमोटर ने प्राधिकरण के समक्ष एक अनरोध नाथ आवेदन दायर किया है कि इसकी अवधि प्रमाप्ति पर पंजीकरण को निरस्त करने के बजार ाधिकरण आबंटिती के हित में लागू करने वे उचित समये जाने वाले आगे के नियम एवं शत के आधार पर इसे जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है तथा लागू नियम एवं शर्तें प्रमोटर

परियोजना के चरण ॥, जिसके लिए परियोजन जारी रखने की मांग की गई है, के संबंध में उनके हिस्से की सभी इकाइयों की बिक्री नहीं हुई है तथा चरण । में परियोजना के संबंध में कोई बदल नहीं किया गया है, जिसमें योग्य प्राधिकारी र ओसी हासिल किए जाने के उपरांत इकाइयों क सुपुर्व कर दिया गया है।

की धारा 7(3) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र क जारी रखने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकर द्वारा प्रमोटर के एक आवेदन पर विचार किया ज रहा है तथा एतद्द्वारा इस संबंध में विशेष रूप आबंटितियों तथा साधारण तौर पर संबंधित व्यक्तिय से आपत्तियां आमंत्रित की जाती है।

समक्ष दिनांक 14.03.2024 से पहले दायर करने होगी तथा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने वं लिए प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 14.03.2024 को अपराहन 2.00 बजे उपस्थित होना होग अन्यथा प्राधिकारी अधिनियम की धारा 7(3) वे अधीन पंजीकरण को जारी रखने के लिए वर्तम आवेदन पर विचार करेगी।

जेबीएम ऑटो लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 601 हेमकुन्त चैम्बर्स, CIN: L74899DL1996PLC083073 ई—मेलः jbma.investor@jbmgroup.com वेबसाइटः www.jbmgroup.com फोन: 011-26427104



पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग सूचना का नोटिस

कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 110 और 108 के प्रावधानों, आम बैठकों पर सचिवीय मानक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, और कार्पोरेट मामले मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी संगत परिपत्रों तथा भन्य लागू वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई है (वर्तमान में लागू और समय–समय पर यथा संषोधित, इनमें कोई भी वैधानिक संषोधनों अथवा पुनः अधिनियमन सहित) की अनुपालना में, कंपनी यहां नीचे निर्धारित संकल्पों के लिए केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक नतदान प्रक्रिया (रिमोट ई—वोटिंग) द्वारा पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 30 जनवरी, 2024

| मद | प्रस्ताव के विवरण | प्रस्ताव की प्रकृति | | | | |
|---|---|---------------------|--|--|--|--|
| सं. | | (साधारण / विशेष) | | | | |
| 1. | श्री निशांत आर्य की प्रबंध निदेशक (प्रमुख प्रबंधकीय | विशेष प्रस्ताव | | | | |
| | अधिकारी), कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के | | | | | |
| | रूप में पदनामित, के तौर पर 18 मई, 2024 से तीन | | | | | |
| | (3) वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति और उनके | | | | | |
| | पारिश्रमिक का निर्धारण करना; | | | | | |
| 2. | जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के | साधारण प्रस्ताव | | | | |
| | साथ सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन; और | | | | | |
| 3. | जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड और | साधारण प्रस्ताव | | | | |
| | जेबीएम ईवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच | | | | | |
| | सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन. | | | | | |
| पोस्टल बैलेट नोटिस साथ में इसका व्याख्यात्मक विवरण ई–मेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक | | | | | | |

डिस्पैच प्रक्रिया बृहस्पतिवार, 29 फरवरी, 2024 को पूरी करे ली गई है। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उददेष्य के लिए केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (''केफिनटैक'') को नियुक्त किया है।

गेस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com, केफिनटैक—वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य जिन्हें पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं होता है, वे ऊपर वर्णित किसी भी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

वर्तमान में लाग नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप सदस्य उपर्यक्त प्रस्तवों पर केवल रिमोट -वोटिंग के जरिए मतदान कर सकते हैं जो कि शुक्रवार, 1 मार्च, 2024 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगा और शनिवार, 30 मार्च, 2024 को अपराहन **05.00 बजे (आईएसटी) संपन्न हो जायेगा**, जिसके बाद केफिनटैक द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉडयुल हटा दिया जायेगा।

. उपर्यक्त संकल्पों पर केवल वही सदस्य अपना वोट देने के हकदार होंगे जिनके नाम . कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में **कट ऑफ तिथि, अर्थात शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024** को दर्ज थे। सदस्य जिनके ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं और इस तरह, उपर्युक्त नोटिस

ग्राप्त नहीं हुआ है वे निम्नलिखित तरीके से अपने विवरण रजिस्टर कर सकते हैं: क जिन सदस्यों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं और जिनका ई–मेल पत पंजीकत / अद्यतन नहीं है. उनसे अनरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करें।

ख. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनका ई–मेल पत पंजीकृत / अद्यतन नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए) को admin@mcsregistrars.com पर एक पत्र भेजकर अथवा +91 11 41406151 पर संपर्क करके अपने ई-मेल पते को पंजीकृत / अद्यतन करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई−वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को देख सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए भीतर घोषित कर दिये जायेंगे। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com और केफिनटैक वेबसाइट nttps://evoting.kfintech.com पर उपलब्धं होंगे। ये परिणाम कंपनी द्वारा एनएसई और बीएसई को भी भेजे जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और उनकी संबंधित

केवाईसी विवरण, बैंक खाता विवरण, नामांकन फॉर्म इत्यादि की प्रतियां प्राप्त करने का आदेश दिया है। इसलिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित दस्तावेजों / विवरणों के साथ–साथ जल्द से जल्द पैन कार्ड, केवाईसी और भन्य विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपनी हिस्सेदारी को डीमैटरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.jbmgroup.com पर जाएं।

कृते जेबीएम ऑटो लिमिटेड

संजीव कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार **रवि तारा और डॉली दत्ता तारा** को **23.02.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसा कर्ज खाता नं. HHLDCP00448574 की राशि रू.6,28,721.15 /- (रुपए छ लाख अट्टाईस हजार सात सौ इक्कीस और पंद्रह पैसे मात्र) और 16.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जार्र

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.02.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततृद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.6,28,721.15 /- (रुपए छ लाख अट्टाईस हजार सात सौ इक्कीस और पंद्रह पैसे मात्र) 16.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा । उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत

संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण फ्लैट नं.ए4/1705. सपर एरिया 599 स्के.फीट. सत्रहवीं मंजिल. टॉवर ए4. श्री राधा स्कार्ड पार्क. प्लॉट नं.जीएच -05, सेक्टर 16बी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा -201303, उत्तर प्रदेश

दिनांक:27.02.2024 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नोएडा इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

(अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार रजत सिंघल और ममता सिंघल को 31.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLEOK00167882 की राशि रू. 24.06.494.94 (रूपए चौबीस लाख छह हजार चार सौ चौरानवे और चौरानवे पैसे मात्र) और 25.01.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की

तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन

करके **26.02.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है । विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 24.06.494.94 (रूप**ए चौबीस लाख छह हजार** चार सौ चौरानवे और चौरानवे पैसे मात्र) 25.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

टावर नंबर 06 में पंद्रहवीं मंजिल पर अपार्टमेंट बेअरींग क्रमांक 157, मापित सुपर एरिया 1145 स्क्वे. फीट एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, "पाम ओलंपिया" से पहचाने जानेवाले आवासीय कॉम्प्लेक्स में, ग्रप हाउसिंग प्लॉट नं. जीएच-02 पर स्थित, सेक्टर 16 सी. ग्रेटर नोएडा, गौतम बद्ध नगर-201308, उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 26.02.2024 प्राधिकत अधिकारी स्थान : गौतम बुद्ध नगर इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड डी-24, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर, पिन : 302001

आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफे परेड, मुंबई-40005, वेबसाइट : www.idbibank.in परिशिष्ट IV (नियम 8 (1))

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्ती

परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 क 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक **मांग सूचना दिनांकित 27—10—2023** निर्गत की थी जिसमें **ऋणकर्ता श्री अमित जैन एवं श्रीमती रश्मि जैन,** को सूचना में अंकित राशि **रु**. 4,67,906.34 **(रुपये चार लाख सतसठ हजार नौ सौ छह एवं चौंतिस पैसे मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तेथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

वृंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वार . ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न वेवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साध पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों व योगांतर्गत, 27 फरवरी 2024 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जात है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन रु. 4,67,906.34 (रुपये चार लाख सतसठ हजार नौ सौ छह एवं चौंतिस पैसे मात्र) और इस राशि पर नियत ब्याज हेतु आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रमाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्द समय के संदर्भ में अधिनियम की धार

13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। संपत्ति का विवरण

मूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जो फ्लैट नंबर डी–508 में समाविष्ट तथा उसका का हिस्सा है, जो चतुर्थ तल, गुरुशिखर दंड, खसरा नंबर 1 से 7 पर, रिंग रोड के पास, ग्राम नानकपुरा, हेमाकी

बुला, **पश्चिम**– गलियारा, **दक्षिण**– सीढ़ियां, **उत्तर**– डी–507, जो कि वहां उस भूमि पर वर्तमान एवं भविष्य दोनों कालखंडों में स्थित समस्त एवं एकल एवं उत्थापनों के साथ है। दिनांक : 27—02—2024, स्थान : जयपुर हस्ता /— प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

गंगल, संगानेर जयपुर–302021 में स्थित तथा **जो निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व–** आकाश की ओर

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स,** बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, मारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2022 की अवधि तक के NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। पथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

शिखोहाबाद-(उप्र) (3554): BLS-53, 76, MDC-1, MDL-1150, MEG-226, MUL-3834, 3855, 3899, 3926, RGL-1681, 1683, 1698, 1775, 1787, SRS-38, 39, 88, 102, 108, TMS-2, 11, फ़िरोज़ाबाद (उप्र) (4438): MDL-1125, 1126, 1127, MEG-130, MUL-3449, 3454, 3460, RGL-1712, 1825, टूंडला-(उप्र) (4959): MUL-536

दूसरी नीलामी की तारीख: 08.03.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, परिसर नं. 16/डी, निचला तल, यस बैंक के पास, एस.एन रोड. फिरोजाबाद ਚ.ਸ.-283203

प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

हाथरस (उप्र) (4639): MAL-600, MDL-315, 318, 534, 713, 779, 780, 801, MEG-151, MUL-2416, 2552, 2578, 2640, 2852, SRS-68 दूसरी नीलामी की तारीख: 09.03.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, प्रथम तल, सिटी प्लाजा, सादाबाद गेट, हाथरस, यू.पी.-204101

प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

अलीगढ़-नोरंगावाद (1964): BLS-16, MAL-1459, MDD-94, MDL-1022, 1185, 1190, 1477, 1501, 1509, 1523, 1543, 1561, 1571, 1594, 1619, 1790, 1791, 1816, 1848, 1932, MEG-126, 224, 493, MGV-12, MHL-193, MHP-216, MUL-5784, 5791, 5864, 5989, 6174, 6232, 6263, 6275, 6312, 6353, 6364, 6375, 6428, 6499, 6541, 6575, 6582, 6669, 6695, 6718, 6736, 6821, 6847, 6867, 6890, SRS-2, 23, 47, 54, 66, 68, 70, 71, 74, 79, 87, 103, 156, 163, 170, 180, 183, 192, 196, 197, 219, 221, 225, 231, अलीगढ़ केंद्र विंद् 124, 140, 149, TMS-78

दूसरी नीलामी की तारीख: 11.03.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल, मुखियाजी कॉम्प्लेक्स, गोपीमिल कंपाउंड, डी.ए.वी. इंटर कॉलेज के सामने नौरंगाबाद अलीगढ (उ.प्र.)-202001

प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

मथुरा (0546): MAL-2741, 2795, 2850, MDD-27, 94, 95, 152, MDL-1576, 1643, 1799, 1815, 2138, 2148, 2168, 2262, 2272, 2346, 2365, 2379, 2394, 2429, 2507, 2607, 2632, 2642 2643, 2767, 2918, 2936, 2969, MEG-225, 294, 310, 472, MHL-263, MUL-4328, 4457, 4569, 4678, 4718, 4725, 4760, 4778, 4863, 4865, 4872, 4925, 4972, 4982, 4997, 5031, 5111 5134 5142 5143 5163 5165 5170 5212 5315 5333 5340 5428 MWS-2493 SRS-6 34 42 53 57 61 71 74 79 85 104 146 155 172 176 180 TMS-50 69 WBS-52, 61, मथुरा-कृष्णा नगर (4320): MAL-2364, MDD-41, 63, 65, MDL-832, 1141, 1180, 1307, 1385, 1602, 1775, 1862, 1864, MEG-221, MHP-296, MUL-7923, 8198, 8263, 8531, 8611, 8633, 8817, 8932, 9020, 9036, 9040, 9073, 9079, 9087, 9088, 9112, 9194, 9279, 9482, SRS-154, 206, 224, TMS-22

दूसरी नीलामी की तारीख: 12.03.2024, नीलामी स्थान: दूसरी मंजिल, ओजल मॉल, होटल मुकुंद पैलेस के सामने, जंक्शन रोड, मथुरा, उ.प्र. 281001 प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

एटा-(उप्र) (4929): MDL-353, 428, 429, 432, 433, 485, 493, MUL-907, 1004, 1007, 1008, 1019, 1027

दूसरी नीलामी की तारीख: 13.03.2024, नीलामी स्थान: ऊपरी निचला तल, 554, सेक्टर 24, द्वारिकापुरी, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश-201001 प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

आगर्प (0457): MAL-3573, 3664, MDD-284, MDL-1972, 2681, 3181, 3211, 3239, 3273, 3321, 3325, 3336, 3480, 3566, 3569, 3570, 3583, 3608, 3609, 3610, 3612, 3705, MEG-74 282, 283, 341, 350, 467, 487, 497, MHP-896, 950, MOL-2224, MSL-22254, MUL-8132, 8133, 8518, 8625, 8629, 8710, 8755, 8760, 8818, 8828, 8840, 8873, 8878, 8896, 8922, 317, 320, 321, 375, TMS-14, आगरा-फतेहाबाद (0674): MAL-3702, 4555, MDD-28, 47, MDL-1523, 2045, 2242, 2635, 2714, 2716, 2822, 2836, 2837, 2883, MEG-99, 110, 265, 309, MHP-571, MUL-11097, 11247, 11250, 11278, 11304, 11329, 11362, 11366, 11375, 11424, 11531, 11630, 11698, 11739, 11804, 11827, 11866, 11879, SRS-7, 8, 48, 59, 68, 78, 143. 184. 196. 206. 247. 252. आगरा-बाईपास रोड (**0705):** MAL-3468. MDD-95. MDL-2194. 2326. 2462. 2481. 2586. 2685. 2701. 2771. MEG-86. 98. 240. MUL-6866. 7283. 7307 7363, 7390, 7391, 7454, 7494, 7507, 7520, 7527, 7539, 7543, 7568, 7570, 7580, 7581, 7590, 7599, 7622, 7641, 7708, 7729, 7743, 7857, 7931, 8005, 8006, SRS-12, 25, 40, 41, 43, 71, 156, 204, 226, 227, 253, 259, 262, <mark>आगरा-अवधपुरी कॉलोनी (3147)</mark>: MDL-1479, 1832, 2061, 2081, MEG-17, 96, 134, MUL-4304, 7259, 7273, 7350, 7370, 7436, 7468, 7488, 7494, 7495, 7522, 7591, 7657, 7670, SRS-105, TMS-12, आगरा-देवरी रोङ-(उम्र) (**4996**): MDL-455, 460, MEG-76, MUL-721, 1245, 1264, 1280, 1349, 1388, 1401, 1417, 1429, 1449, 1451, 1463, SRS-2, 21, 44, 46, 48, 51, 53, 67

दूसरी नीलामी की तारीख: 14.03.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल जी-8 से 10, फ्रेंड्स वासन प्लाजा, एमडी जैन इंटर कॉलेज के सामने, संजय पैलेस. आगरा-282002

प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

इटावा-(उप्र) (4707): MAL-629, MDL-198, 325, 484, 486, 490, MEG-2, 3, 151, MUL-1803, 1832, 1886, 1928, 1941, SRS-12, 20, 21, 23, 25, 27, 34, 37, 46, 49, 59, 73 दूसरी नीलामी की तारीख: 15.03.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, 867-ए, बाबा कॉम्प्लेक्स, हर्ष नगर, कचहरी रोड, इटावा, उ.प्र.-206001.

प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024 मैनपुरी-(उम्र) (4950): MDL-274, 280, 314, 463, MUL-1061, 1080, 1144, 1160, 1259, 1268, 1302, 1338, 1342, SRS-26, 57, 64, 80, 83

Second Auction Date: 16.03.2024, नीलामी स्थान: ऊपरी निचला तल, 5/सीपी-11, राधा रमन रोड, जिला मैनपूरी, उत्तर प्रदेश-205001

प्रथम नीलामी की तिथि: 07.03.2024

कासगंज-(उप्र) (4966): MUL-745, 746, SRS-11 दूसरी नीलामी की तारीख: 18.03.2024, नीलामी स्थान: प्रथम तल, विनोद दुबे कॉम्प्लेक्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ऊपर, सोरोन गेट, कासगंज, उ.प्र. 207123

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता हैं क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी **दूसरी नीलामी की तारीख** को क्रमशः **दिये गए नीलामी केंद्र** में संचालित की जाएगी ⁄ जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडी**: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

वास्ते पैसालो डिजिटल लिमिटे थान : फरीदाबाद

CIN Number:- U65990MH2016PTC271587 प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पूनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

समायोजन करेगी।

| कर | कर्जदारों पर सम्पत्तियों के मालिकाना पर तृतीय पक्ष हित सृजित करने अथवा बिक्री करने पर भी निषेध है। | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---------------|-----------------|---|--|--|--|
| 豖. | | कर्जदार/ | भेजी गई | मांग सूचना | सम्पत्ति का विवरण | | | |
| सं. | | सह-कर्जदारों/ | मांग सूचना | के अनुसार | | | | |
| | संख्या | गारंटीदाता का नाम | की तिथि | रकम | | | | |
| 1 | दिल्ली गाजियाबाद | धीरेन्द्र कुमार, | 17-फरवरी-2024 | ₹. 16,03,821/- | ग्राम-शाहबेरी, परगना एवं तहसील दादर्र | | | |
| | LNGHA0HL- | प्रियंका ज्योति | | (रुपये सोलह लाख | जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र20130 | | | |
| | 02190009428 | मैसर्स मूभ बिटकॉन | | तीन हजार | में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाला प्लॉट नं | | | |
| | | प्राइवेट लिमिटेड | | आठ सौ | बी-2, कैपिटल होम्स, उम्मीद गार्डन | | | |
| | | | | इक्कीस मात्र) | सेक्टर-4, खसरा नं. 166, खाता नं | | | |
| | | | | | 17, लेवल-2, अपर ग्राउंड फ्लोर (पिछव | | | |
| | | | | | आरएचएस दक्षिण पश्चिम हिस्सा) प | | | |
| | | | | | सम्पत्ति फ्लैट नं. यूजी-1 का सम्पूर्ण ए | | | |
| | | | | | सर्वांगीण हिस्सा। भवन की चौहद्दी ए | | | |
| | | | | | परिमाप निम्नलिखित हैं: उत्तर में: 50 | | | |
| | | | | | फीट रास्ता, पश्चिम में: प्लॉट नं. बी- | | | |
| | | | | | पूर्व में: प्लॉट नं. बी-3, दक्षिण में: बा | | | |
| | | | | | की खेत। | | | |

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मथुट फाईनान्स लि. द्वारा 01st & 02nd March 2024 को (बंधक आभषणों की—एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 12th & 13th March 2024 को सार्वजनिक नीलामी पनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट

पत्रांकः : 3124-27/निविदा सूचना/2023-24 ई—प्रोक्योरमैन्ट नोटिस

PAISALO PAISALO DIGITAL LIMITED REGD. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019 TEL: +91 11 43518888 WEB: www.paisalo.in CIN: L65921DL1992PLC120483

जातान लान अर्थः समाजस्य न्यास **सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना (पोस्टल बैलेट नोटिस)** सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पतित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन सिहत) और / या फिलहाल लागू होने के लिए उसका पुन: अधिनियम), भारत के कम्पनी सिंव संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी सचिवीय मानक-2 के लागू प्रावधान, कीपीरट मामलों में मंजालय ("एमसीए") हारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 10/2021, 20/2023, 70/202, 39/202, 39/2023, 10/2023, 10/2023, 10/2021, 05 मई, 2022, 5 मई, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून, 2017, 08 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022, 8 दिसंबर, 2023 और 25 सितंबर, 2023 कमार: भारतीय प्रतिमृति और 2017 मित्र विद्यार सुचीबद्धा ता वादित्य और प्रकटीकरण आवश्यकतारों) विनियम, 2015 के विनियम 44 और 47 व किसी भी अन्य लागू कानृतों और विनियमों के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट नोटिस, दिनांकित गुरुवार, 22 फरवरी, 2024 ("नोटिस") या केवल रिमोट के हाल प्रतिम्य के अनुमादन होत होता होता होता होता है। सिहत के अनुमादन के साथमा से कंपनी के शेयरधारकों के अनुमीदन होतु केवल इतेवहॉनिक माध्यम (ई-वीटिग) से मतदान करने के लिए, कंपनी ने गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 को पोस्टल बैलेट नोटिस केवल इतेवहॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों को भेजा है जिनके ई-नेल पत्र कंपनी /डिसॉजिटरी के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम (कट—ऑफ तिथि) शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 को कंपनी /डिसॉजिटरी के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम (कट—ऑफ तिथि) शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 को कंपनी के सदस्यों के पितस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी माजिकों के एजिस्टर में दर्ज हैं। कंपनी अन्य सदस्यों के स्वार करने के लिए नेशनक स्वार्ध संस्था है। स्वार्ध संस्था के नीटिंग प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रवा के स्वार्ध संस्था के अनुपी के स्वर्ध संस्था के अपनी सहस्यों के स्वार्ध संस्था के स्वार्ध के स्वार्ध संस्था संस्था स्वार्ध संस्था के स्वार्ध के सहस्य के उसकर संस्था संस्था संस्था संस्था संस्था संस्था संस्था संस्था संस्

एक व्यक्ति जो 'कट—ऑफ तिथि' पर सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से ले

वाहिए। एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट पड़ जाने के बाद, सदस्यों को बाद में बदलाव करने की अनमति नहीं दे सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः भा संदर्भ को श्लेषता किया जाता है कि. कट—ऑफ दिन, तिथि यानी शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूम में शेय-रखने वाले सदस्य केवल ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय पर अपन

वोट डाल सकते हैं। बीट जाए सक्या है. ई—वोटिंग शुरू होने का दिन, तारीख और समयः शुक्रवार, 1 मार्च, 2024 (सुबह 9 बजे से) ई—वोटिंग समाप्त होने का दिन, तारीख और समयः शनिवार, 30 मार्च, 2024 (सांय 5 बजे तक) उक्त तिथि और समय के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

इ—साटन स्वरक्षान का ानाष्ट्रय करा दाया जायगा। ई—बोटिंग की निष्प्रक्ष एयं पारदर्शी ढंग से जांच करने के लिए मैसर्स सतीश जादौन एंड ऐसोसिएट के प्रोपराईटर कंपनी सचिव श्री सतीश कुमार जादौन को संवीक्षक नियुक्त किया गया है। ई—बोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रबच्च निदेशक या जनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को सीपेगें। ई—बोटिंग के नतीजे सोमवार् 1 अप्रेल, 2024 को कंपनी की वेबसाइट www.paisalo.in पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ डालकर घोषित किए जाएंगे। ई—वीटिंग के परिणामों की प्रति बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सोमवार, 1 अप्रत, 2024 को सूचित की जाएगी और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डियॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी। पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्टॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐस् 8. पास्टल बेलेट नांटिस में उल्लिखित दस्तावंज इलेक्ट्रीनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐसं दस्तावंजों का निरीक्षण करने के हच्छुक सदस्य cs@paisalo.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं । डाक मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.paisalo.in पर, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई की वेबसाइट www.nsoindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिऑजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evotting.nsdl.com पर मी उपलब्ध है । जिन शेवरायारकों ने अपना ईमेल पता, गोबाइल और केवाईसी विवरण आस्टीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, उनसे फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखत तरीके से पंजीकृत/अपडेट करें:

डीपी के साथ विवरण पंजीकृत/अधतन करनाः यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए है, तो शेयरधारक व

दूरभाष

1. डीपी के साध्य विवरण पंजीकृत / अधवान करनाः यदि शेयर डीमेट मोड में एखे गए है, तो शेयरचारक को डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेट खाते में ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और कंवाईसी विवरण पंजीकृत / अधवान करना चाहिए।
2. आरटीए के साध्य विवरण पंजीकृत / अधवान करनाः यदि शेयरों को भौतिक मोड में रखा गया है, तो शेयरचारकों को तुरंत ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य कंवाईसी विवरणों को ई-मेल cs@paisalo.in पर्नावितिं आईएसआर-1 जमा करके या कंपनी के पंजीकृत / कार्यात्वय में भेजकर पंजीकृत / अधवान करना चाहिए। शेयरचारक कंपनी को वेबसाइट https://paisalo.in/pdf/2_Relevant-forms/Form_ISR-4.pdf से निवेशक अनुमाग के तहत, या आरटीए की वेबसाइट https://www.alankit.com/registrar-and-share-transfer-agent से निचारित फांमें डाउनालोड कर सकते हैं।
ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य इसे नीचे दिए गये पते / कंपनी / एनएसडीएल के अधिकारी को मेज सकते हैं: पैसालो डिजिटल लिमिटेड विवरण

सीएससी. पॉकेट 52. नियर पुलिस स्टेशन, सीआर पार्क, नई दिल्ली–110019 श्री मनेन्द्र सिंह नाम एवं कंपनी सचिव

ई—मेल आईडी | cs@paisalo.in evoting@nsdl.co.in शेयरधारुकों को अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ई–वोटिंग इसे सर शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे होल्डिंग, हस्तांतरणीयता और अन्य संबंधित लाभों में आसानी के लि अपने भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में परिवर्तित करें।

91 11 4351 8888

उपने मातिक वांचरा का ठानट रूज ने पारपारात कर। 23 मई, 2023 से सेवी ने बोनस इस्यू में शेयरों का आवंटन केवल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म आईएसआर-4 और डीपी की क्लाइंट मास्टर सूची के साथ अपने डीमेट खातों का विवरण जो कि कंपनी के भौतिक होरिल्डंग के समान नामनामों के क्रम में होना चाहिएआरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को जनके डीमेट खातों में शेयर जमा करने के लिए प्रदान करें।

अन्य आन्य आधा न शबर जना करन क ालए प्रदान कर । भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भौतिक शेयर फोलियों कवाईसी, पैन और नामांकन की पंसद के साथ अधतन हैं। इस आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद ही, बोनस शेयरों को जमा करने के अनुरोध पर कंपनीआरटीए द्वारा दस्तावेजों के जयित सत्यापन के बाद विचार और कार्यवाही की जाएगी।

ग्रन : नई दिल्ली

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स, कंपाउंड, लोअर पावेल,

मुंबई-400013

सुश्री प्राजक्ता पॉवले

91 4886 7000 2499 70000

सहायक प्रबंधक

तिथि : 29.02.2024

वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सेबी ने कंपनी /आरटीए को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों से पैन कार्ड

सदस्यता संख्या 18087

पर बाध्यकारी होंगे। 3 प्रमोटर ने यह भपथ पत्र दाखिल किया है वि

l. इस परियोजना को जारी रखने के लिए अधिनिय

5. इन आपत्तियों को प्राधिकारी के पंजीयक व

कृते हरियाणा रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम